

17th September, 2020

To,
The National Stock Exchange of India Limited
"Exchange Plaza",
Plot No. C/1, G Block,
Bandra- Kurla Complex, Bandra (E),
Mumbai-400051

NSE Symbol : JHS

Department of Corporate Services
The Bombay Stock Exchange Limited
25th Floor , P.J Towers,
Dalal Street,
Mumbai – 400001

Company Code No: 532771

Subject : Submission of Copies of Published Unaudited Standalone and Consolidated Financial Results of the Company

Dear Sir,

In continuation of our letter dated September 15, 2020, we enclose copies of newspapers publications in which Unaudited Standalone and Consolidated Financial Results for the First Quarter ended June, 30, 2020 are published on September 17, 2020 in Business Standard (English) and Business Standard (Hindi).

This is for your kind information and record.

Kindly acknowledge the receipt.

Thanking you,

Yours sincerely,

FOR JHS SVENDGAARD LABORATORIES LIMITED


Kirti Maheshwari
Company Secretary & Compliance Officer

Enclosure: as above

Tencent investing \$63 mn in Flipkart

PEERZADA ABRAR
Bengaluru, 16 September

Chinese technology conglomerate Tencent is investing \$62.8 million in Walmart-owned e-commerce firm Flipkart, according to a report by business intelligence platform Paper.vc.

The investment comes amid Sino-India tensions, including the ban on Chinese apps and the changes to the foreign direct investment (FDI) norms and pre-clearance mechanisms on investments from China.

Walmart had announced a \$1.2-billion infusion into Flipkart in July, but no filings in connection with that announcement have yet been made. "There is the possibility though that Tencent's investment is the first money in, as part of this larger round involving Walmart and other shareholders," said Paper.vc.

Paper.vc said Tencent is a minority investor in the platform whose Singapore-holding firm saw Walmart acquiring a majority stake in 2018. It said Tencent shares the cap table with other minority investors, including Tiger Global, Accel, former Flipkart chief executive officer and co-founder Binny Bansal, Microsoft, and Singapore GIC. "Our calculations based on the available data indicate that Tencent holds stake in the range of 4-5.3 per cent," said Paper.vc.

Flipkart did not respond to the query about this development. Even as Tencent announced that it was opening a regional hub in Singapore, it appears to be generating conflicting signals about its India strategy.

Recent news reports indicated that Tencent was selling a part or all of its holding in Indian gaming platform Dream11. But it marked its Singapore announcement by enhancing its stake in Flipkart, according to the Paper.vc report.

Experts said the investment is part of the portfolio and investment restructuring strategy being adopted by Tencent to combat regulatory measures



TOP INVESTMENTS OF TENCENT IN INDIAN COMPANIES

Company	Area
Byju's	Education technology
Dream Sports	Fantasy sports
Flipkart	E-commerce
Hike	Messaging
Ola	Ride hailing
Swiggy	Food delivery
Udaan	B2B e-commerce
Ibibo Group*	Online travel
Khatabook	Fintech
MyGate	Home security technology
Practo	Digital health care

*Merger with MMT Source: Various reports

Flipkart eyes foreign listing as early as 2021

Flipkart is preparing for an initial public offering overseas as early as 2021, sources said. Flipkart will be aiming for a valuation in the \$45-50 billion range, according to one source with knowledge of the matter. If achieved, that would mean Walmart would have more than doubled its investment. Flipkart is likely to choose between Singapore, or the US for the IPO, said two other sources. REUTERS

adopted by India, curbing opportunistic takeover and acquisitions of Indian firms.

"But these creative structures may further require the Indian government to revisit the restrictions put in place. Creative structure of indirect holdings in parent entities are being devised to circumvent regulatory approvals by the Indian government," said Sumit Kochar, corporate commercial lawyer and transaction advisory partner at Dolce Vita Trustees.

Amid rising tension with China arising from a border dispute, the Indian government also recently banned a number of applications that it said were owned by Chinese companies, on the grounds of national security. Among them was Tencent's multiplayer battle royale game PlayerUnknown's Battlegrounds (PUBG).

Start-ups cheer proposal to remove LTCG tax

SAI ISHWAR
Mumbai, 16 September

The recommendation to abolish long-term capital gains (LTCG) tax for investments in start-ups for two years is expected to result in tangible benefits for the community.

The move will establish a level-playing field for domestic investments in start-ups compared to foreign-based sources. It will also encourage domestic financial institutions to see start-ups as an alternative asset class that has been heavily dependent on foreign capital till now, experts said.

"It is a great first step as domestic money is not flowing into the (start-up) ecosystem like other nations. A lot of foreign capital is taking a larger slice of the pie. The tax incentives will go a long way in kick-starting the domestic contribution as most PE and VC funds have also raised money outside India. This will unlock domestic capital from insurance and financial institutions that don't usually invest in start-ups," said V Balakrishnan, partner and chairman at Exfinity Venture Partners.

Of the \$14 billion raised by start-ups from VCs in 2019, only around \$1 billion came from Indian sources, said experts.

"These reforms would open the floodgates of domestic capital going into start-ups like never before as long as the eligibility criteria of the tax bene-

fits are not too narrow," said Kunal Bahl, CEO and co-founder of Snapdeal.

"The LTCG tax in India is higher for private and unlisted securities, that is at 20 per cent, when compared to publicly-listed securities (10 per cent). This policy is short-sighted because start-ups directly create jobs and tech advancements, including IP in India," said Kushal Bhagia, CEO at Firstcheque.vc.

"Fully loaded, Indian investors into start-ups pay 2.54 times the rate paid by their foreign counterparts. This is the reason for the emaciated participation of Indian investors in domestic start-ups," said Siddharth Pai, founding partner at 3one4 Capital.

The tax incentive will also dissuade a lot of India-focused start-ups from registering their headquarters in cities such as Singapore or Delaware instead of India as encouraged by the foreign-based PE or VC funds that have backed them.

"Tax is a big motivator for foreign funds to encourage such a move (of setting up foreign-registered holding companies) as it fetches them a better internal rate of return (IRR). Now, that argument doesn't hold as much water," he said.

Experts said the recommendations are likely to be adopted as long-term benefits will outweigh the quantum of revenue impact that is anyway projected to be minimal.

Oil and Natural Gas Corporation Ltd.
CIN: L74899DL1993GOI054155
Reg. Office: Plot No. 5A-5B, Nelson Mandela Marg, Vasant Kunj, New Delhi, South West Delhi - 110070 | Tel: 011-26754073/4085
Website: www ONGCIndia.com, email: secretariat@ongc.co.in

NOTICE OF THE 27TH ANNUAL GENERAL MEETING AND E-VOTING

Notice is hereby given that 27th Annual General Meeting (AGM) of the Members of OIL AND NATURAL GAS CORPORATION LIMITED will be held on Friday, the 08.10.2020 at 11:00 hrs. IST through Video Conferencing ("VC") / Other Audio Visual Means ("OAVM") in compliance with the applicable provisions of the Companies act, 2013 and the rules made thereunder and SEBI - Listing Obligations and Disclosures Requirements (LODR) Regulations, 2015 read with applicable circular issued by the Ministry of Corporate Affairs (MCA) and SEBI (hereinafter collectively referred to as 'circulars') to transact the business items as set out in the Notice.

E-dispatch of Notice of AGM and Annual Report FY'20: Electronic copies of Notice of AGM and Annual Reports for the FY'20 have been sent to Members through emails whose email IDs are registered with Registrar and Share Transfer Agent (RTA) of the Company/Depositories participant(s) on 04.09.2020.

Notice and Annual Report FY'20 are also available on the website of the Company, Stock exchanges (BSE and NSE) and National Securities Depository Ltd (NSDL).

Company is providing facility to cast vote(s) on the business set forth in the Notice through remote e-voting as well during the AGM through VC/ OAVM.

1. Members are hereby informed that:

- The remote e-voting period will commence on 05.10.2020 (15:00 hours IST) and end 08.10.2020 (17:00 hours IST).
- During this period, Members holding shares either in physical form or in dematerialized form, as on 02.10.2020 i.e. cut-off date, may cast their votes electronically.
- Any person who becomes member after dispatch of Notice and holds shares as on cut-off date, may obtain Login ID and password by sending a request at evoting@nsdl.co.in. However, if the person is already registered with NSDL for e-voting then the existing User ID and Password can be used for casting vote.
- Remote e-voting facility shall be disabled by NSDL at 5:00:01 p.m. IST on 08.10.2020 and the vote once cast through remote e-voting cannot be changed subsequently.
- The Members who have not casted their vote/s by remote e-voting prior to the AGM may attend/ participate in the AGM through VC/OAVM but shall not be entitled to cast their vote/s again.
- Members, who will be attending AGM through VC/OAVM facility and have not cast their votes on the business items through remote e-voting and are otherwise not barred from doing so, shall be eligible to vote through e-voting system during the AGM.

2. In case you have any queries relating to e-voting, you may refer to the 'Frequently Asked Questions' (FAQs) and e-voting manual available at www.evoting.nsdl.com under help section or may contact Ms. Pallavi Mhatre (Manager), NSDL, 4th Floor, 'A' Wing, Trade World, Kamala Mills Compound, Senapati Bapat Marg, Lower Parel, Mumbai - 400013, at the designated e-mail: evoting@nsdl.co.in Tel: 1800 222 990 / 91 22 24994200 / 91 22 24994545.

3. In terms of Regulation 44 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosures Requirements) Regulation, 2015, as the AGM is being conducted through VC, the requirement of webcast under SEBI (LODR) has been complied with.

4. Members are requested to read carefully all the instructions given in the Notice of AGM for joining the AGM through VC/OAVM and manner of casting vote through e-voting.

New Delhi
16.09.2020

for Oil and Natural Gas Corporation Ltd
Sd/-
M E V Selvam
Compliance Officer,
Company Secretary & Executive Director

SPML
Engineering Life

SPML INFRA LIMITED
CIN: L40106DL1981PLC012228
Registered Office: F-27/2, Okhala Industrial Area, Phase-II, New Delhi- 110020
Website: www.spml.co.in, email-id : info@spml.co.in

Extract of Standalone and Consolidated Un-Audited Financial Results for the Quarter ended 30th June, 2020
(Rs. in Lakhs)

PARTICULARS	STANDALONE				CONSOLIDATED			
	Quarter Ended		Year Ended		Quarter Ended		Year Ended	
	30.06.2020	31.03.2020	30.06.2019	31.03.2020	30.06.2020	31.03.2020	30.06.2019	31.03.2020
	(Unaudited)	(Unaudited)	(Unaudited)	(Audited)	(Unaudited)	(Unaudited)	(Unaudited)	(Audited)
1. Total income from operations	9,435.08	25,767.52	21,196.70	107,308.69	9,329.63	39,796.26	41,574.68	181,513.97
2. Net Profit for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items#)	(3,475.35)	(523.42)	706.51	158.29	(3,697.57)	762.49	1,135.60	2,447.82
3. Net Profit for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items#)	(3,475.35)	(523.42)	706.51	158.29	(3,697.57)	762.49	1,135.60	2,447.82
4. Net Profit for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items#)	(3,105.21)	91.38	898.86	241.80	(3,183.75)	490.61	1,187.06	659.13
5. Total Comprehensive Income for the period	(3,087.59)	531.25	911.84	699.81	(3,166.13)	921.12	1,200.84	1,109.10
6. Equity Share Capital	819.45	819.45	819.45	819.45	819.45	819.45	819.45	819.45
7. Earnings Per Share (of Rs.2/- each) in Rs.	(8.47)	0.25	2.45	0.66	(8.69)	1.34	3.24	1.80
8. Basic & Diluted (Rs)								

The Company does not have any Exceptional and Extraordinary items to report in above periods

Notes:

- The above is an extract of the detailed format of Un-Audited Standalone and Consolidated Financial Results for the quarter ended 30th June, 2020 filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosures Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Audited Standalone and Consolidated Financial Results for the quarter ended 30th June, 2020 are available on the websites of the Stock Exchange(s) i.e. NSE at www.nseindia.com and BSE at www.bseindia.com and the Company's website www.spml.co.in.
- The Audited Standalone and Consolidated Financial Results for the quarter ended 30th June, 2020 was approved by the Audit Committee and the Board of Directors of the Company in their respective meetings held on 15th September, 2020.

Dated: 15th September, 2020
Place: Kolkata

For SPML Infra Limited
Sd/-
Subhash Chand Sethi
Chairman
DIN: 00464390

TO BUY BUSINESS OF PRIME INDUSTRIAL CHEMICALS

Advance Surfactants India Limited - In Liquidation
E-Auction of Business as a Whole & On Going Concern Basis Under the Insolvency and Bankruptcy Code, 2016

Date & Time of E-Auction: Friday, 25th September 2020 from 11 am to 5 pm (With unlimited extension of 10 minutes)

E-Auction Sale of Business as a Whole & On Going Concern Basis of M/s Advance Surfactants India Limited - In Liquidation on "As is where is basis", "As is what is basis", "Whatever there is basis", and "No recourse basis".

Nature of Asset	Description	Reserve Price (INR)	Earnest Money Deposit (INR)	Incremental Bid Amount (INR)
Business of All the Units of Corporate Debtor comprising of Land, Building, P&M, other assets etc	The Corporate Debtor comprising of All the Units of All Locations located at Silvassa, Puducherry, Hooghly, Mangalore and Pithampur (MP) as a Going Concern. (Description of Assets, Properties etc owned by the Corporate Debtor at all the Locations provided in E-Auction Process Information Document and may be downloaded from the link provided below)	Rs. 20,00,00,000/- (Rupees Twenty Crores only)	Rs. 1,00,00,000/- (Rupees One Crore only)	Rs. 10,00,000 (Rupees Ten Lakhs only)

Terms and Conditions of the E-Auction:

- The complete E-Auction Process Information Document containing Terms and Conditions of E-Auction are available on website of approved service provider M/s Right2Vote Infotech Private Limited - <https://right2vote.in> and also on www.kgsip.com For any clarifications Contact Mr. K.G Somani, E-Mail: kgsomani.advance@gmail.com
- The Liquidator has the absolute right to accept or reject any or all offer(s) or adjourn/postpone/cancel the e-Auction or withdraw any property or portion thereof from the auction proceeding at any stage without assigning any reason thereof.

Sd/- Kishan Gopal Somani - Liquidator
IBBI Reg No: IBBI/PA-001/P-P00300/2017-18/10544
KG Somani Insolvency Professionals Private Limited Address: 3/15, 4th Floor, Asaf Ali Road, New Delhi - 110002, Email id: kgsomani.advance@gmail.com, Contact Number: 011-41428262, 011-23277677, 9310182010

JHS SVENDGAARD LABORATORIES LIMITED
Regd Office : Trilokpur Road, Kheri (Kala-amb), Tehsil-Nahan, Distt. Sirmour, Himachal Pradesh-173030, INDIA
CIN - L24230HP2004PLC027558

EXTRACT OF UNAUDITED CONSOLIDATED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER ENDED 30TH JUNE, 2020
(Rs In lacs)

Particulars	Quarter Ended 30 th June 2020		Quarter Ended 31 st March 2020	
	Unaudited	Audited	Unaudited	Audited
	Total income from operations	1,873.13	4,907.49	2,704.10
Net Profit / (Loss) for the period (before tax, exceptional item and/or extraordinary items)	(318.89)	682.50	(101.16)	479.39
Net Profit / (Loss) for the period (before tax after exceptional and/or extraordinary items)	(318.89)	(381.19)	(101.16)	(584.30)
Net Profit / (Loss) for the period (after tax exceptional and/or extraordinary items)	(250.23)	(252.96)	(76.67)	(485.50)
Total comprehensive income for the period	(249.39)	(254.86)	(74.91)	(482.13)
Equity Share Capital (Face value of Rs 10 each)	6,090.05	6,090.05	6,090.05	6,090.05
Reserves (Excluding Revaluation Reserves)	-	-	-	11,709.80
Earnings per equity share (of Rs 10 each)				
(a) Basic (Rs)	(0.41)	(0.30)	(0.05)	(0.32)
(b) Diluted (Rs)	(0.41)	(0.30)	(0.05)	(0.32)

Key numbers of Standalone Financial Results

Particulars	Quarter Ended 30 th June 2020		Quarter Ended 31 st March 2020	
	Unaudited	Audited	Unaudited	Audited
	Total income from operations	1,778.75	4,752.59	2,459.70
Profit / (Loss) for the period (after extraordinary activities but before tax)	(213.97)	(195.33)	73.46	179.09
Profit / (Loss) for the period (after extraordinary activities and tax)	(198.28)	(110.71)	46.60	176.99
Total comprehensive income for the period	(198.66)	(116.30)	47.96	175.46

Notes: The above is an extract of the detailed format of Financial Results for the quarter ended filed with the Stock Exchange under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosures Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Financial Results for the quarter ended 30th June 2020 are available at the website of the BSE (www.bseindia.com) and NSE (www.nseindia.com) and also on company website www.svendgaard.com.

For and behalf of
For JHS Svendgaard Laboratories Limited
Sd/-
Nikhil Nanda
Managing Director
DIN 00051501

Date : 15 September 2020
Place : New Delhi

ZODIAC
FINEST QUALITY CLOTHING

EXTRACT FROM THE UNAUDITED STANDALONE AND CONSOLIDATED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER ENDED 30TH JUNE 2020

Sr. No.	PARTICULARS	STANDALONE				CONSOLIDATED			
		QUARTER ENDED ON		YEAR ENDED ON		QUARTER ENDED ON		YEAR ENDED ON	
		June 30, 2020 (Unaudited)	March 31, 2020 (Refer Note 'c' below)	June 30, 2019 (Unaudited)	March 31, 2020 (Audited)	June 30, 2020 (Unaudited)	March 31, 2020 (Refer Note 'c' below)	June 30, 2019 (Unaudited)	March 31, 2020 (Audited)
1.	Total Income from operations	2,461	4,667	6,070	20,683	1,806	4,707	5,402	20,296
2.	Net Loss for the period before tax	(778)	(639)	(645)	(2,335)	(1,443)	(717)	(1,303)	(3,005)
3.	Loss for the period after tax	(891)	(580)	(640)	(2,132)	(1,451)	(681)	(1,350)	(2,897)
4.	Total Comprehensive Loss for the period [Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	(990)	(1,312)	(525)	(3,278)	(1,467)	(1,177)	(1,240)	(3,733)
5.	Paid up Equity Share Capital	2,248	2,248	2,129	2,248	2,248	2,248	2,129	2,248
6.	Earnings Per Share (EPS) (of Rs. 10/- each) (not annualized) (In Rs.)								
	1. Basic:	(3.96)	(2.58)	(3.01)	(9.65)	(6.46)	(3.03)	(6.34)	(13.10)
	2. Diluted:	(3.96)	(2.58)	(3.01)	(9.65)	(6.46)	(3.03)	(6.34)	(13.10)

Notes:

- The above is an extract of the detailed format of Quarterly Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosures Requirements) Regulation, 2015. The full format of the Quarterly Financial Results are available on the Stock Exchange websites www.nseindia.com and www.bseindia.com and on Company's website www.zodiaconline.com.
- The Company's plants, retail stores and offices were shut down from March 25, 2020 consequent to nationwide lockdown announced by the Government of India due to COVID-19 pandemic and with easing of restrictions, the Company's plants, retail stores and offices have commenced operations. However, since the lockdown continued for most part of the current quarter, the low market demand has impacted the financial results of the current quarter. Considering the current situation, there are no material adjustments required to the carrying value of assets and liabilities as at June 30, 2020 and the Company will continue to monitor the changes for any material impact as the situation evolves.
- The figures for the quarter ended March 31, 2020 are the balancing figures between audited figures in respect of the full financial year ended March 31, 2020 and the unaudited published year to date figures upto third quarter of the said financial year.

For and on behalf of the Board of Directors
Sd/-
S. Y. NOORANI
Vice Chairman & Managing Director
DIN : 00068423

ZODIAC CLOTHING COMPANY LTD.
Regd. Office: Nyloc House, 254, D-2, Dr. Amie Besant Road, Worli, Mumbai - 400030.
Tel : 022-66677000, Fax : 022-66677279,
Website : www.zodiaconline.com, Email Id : coscec@zodiacmct.com
CIN: L17100MH1984PLC03143

